

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2011/अश्विन 22, 1933
No. 199] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2011/ASVINA 22, 1933

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2011

फा. सं. सम्मे. 5(8)2008/एचपी/13937.—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, इसके आगे "योजना" के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (1) के उपबंधों के अनुसार एवं भारत के राजपत्र, खण्ड-III, भाग 4 में दिनांक 31-3-2008 को प्रकाशित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(8) 2008/एच पी/26242; दिनांक 26-2-2008 का अधिक्रमण करते हुए, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि), एतद्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, यथा :—

क्रम संख्या	सदस्य का नाम एवं पदनाम	नियुक्ति
1.	अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।	—अध्यक्ष [अनुच्छेद 4(1)(क) के अन्तर्गत]
2.	श्रम आयुक्त-सह-रोजगार निदेशक, हिमाचल प्रदेश।	—सरकारी सदस्य [अनुच्छेद 4(1)(ख) के अन्तर्गत]
3.	अपर/संयुक्त सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार।	
4.	श्री अश्विनी शर्मा, मैसर्स वर्धमान टैक्सटाइल्स लिमिटेड, साई रोड, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	—सदस्य नियोक्ता के प्रतिनिधि अनुच्छेद [4(1)(ग) के अन्तर्गत]
5.	श्री नंद लाल, निदेशक (कार्मिक), एसजेवीएनएल, हिमफेड बिल्डिंग, बी सी एस, शिमला-9	
6.	श्री सुरिन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष, बी एम एस, बी ए/II/3, रिज माउन्ट, शिमला-1, हिमाचल प्रदेश।	—सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि [पैरा 4(1)(घ) के अन्तर्गत]
7.	बाबा हरदीप सिंह, अध्यक्ष इंटक, सेक्टर 1, एन एच-22, परवानू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	

2. हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के प्रभारी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय-शिमला, हिमाचल प्रदेश, क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.), हिमाचल प्रदेश राज्य के सचिव होंगे।
3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा। तथापि, प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं हो जाती।
4. यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन III/4/105/11-असा.]

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2011

F. No. Conf. 5(8) 2008/HP/13937.—In accordance with the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of Notification No. Conf. 5(8)2008/HP/26242, dated 26-2-2008 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, which was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on 31-3-2008, the Chairman, Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) hereby sets up a Regional Committee for the State of Himachal Pradesh consisting of the following persons, namely :—

Sl. No.	Name and Designation of the Member	Appointment as
1.	Additional Chief Secretary (Labour and Employment) to the Government of Himachal Pradesh.	—Chairman [Under para 4(1)(a)]
2.	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh.	—Official Members [Under para 4(1)(b)]
3.	Additional/Joint Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh.	
4.	Shri Ashwani Sharma, M/s. Vardhman Textiles Ltd., Sai Road, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.	Employers' Representatives [Under para 4(1)(c)]
5.	Shri Nand Lal, (Director (Personnel), SJVNL, Himfed Building, BCS, Shimla-9	
6.	Shri Surinder Thakur, President, BMS, BA/II/3, Ridge Mount, Shimla-1, Himachal Pradesh.	Employees' Representatives [Under para 4(1)(d)]
7.	Bawa Hardeep Singh, President, INTUC, Sector-I, NH-22, Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh	

2. The Regional Provident Fund Commissioner-in-charge of Himachal Pradesh Region at Regional Office, Shimla, shall be the Secretary of the Regional Committee (EPF) for the State of Himachal Pradesh.

3. The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

4. This will come into force with immediate effect.

S. CHATTERJEE, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT. III/4/105/11-Exty.]